

बी. ए. तृतीय वर्ष संस्कृत परीक्षा 2019-2020

प्रश्नपत्र कूट संख्या - 3641

प्रथम प्रश्न पत्र: वैदिक व लौकिक काव्य एवं गद्य

पाठ्यक्रम

100 अंक

1. वैदिक काव्य -
 - (अ) वेदचयनम् के निम्नलिखित सूक्तों का अध्ययन अपेक्षित है -
 1. विष्णुसूक्त - ऋग्वेद मण्डल - 1, सूक्त 154
 2. इन्द्रसूक्त - ऋग्वेद मण्डल - 2, सूक्त 12
 3. प्रजापति सूक्त - ऋग्वेद मण्डल - 10, सूक्त 121
 4. पुरुष सूक्त - ऋग्वेद मण्डल - 10, सूक्त 90
 5. वाक् सूक्त - ऋग्वेद मण्डल - 10, सूक्त 125
 - (आ) कठोपनिषद् प्रथम अध्याय की प्रथम दो वल्ली मात्र
2. लौकिक काव्य - किरातार्जुनीयम्-भारवि (प्रथम सर्ग)
3. गद्य - शुकनासोपदेश - बाणभट्ट

पाठ्यक्रम की इकाइयाँ

1. प्रथम इकाई - वेदचयनम् - विष्णु, इन्द्र, प्रजापति, पुरुष, वाक् सूक्त।
2. द्वितीय इकाई - कठोपनिषद् - प्रथम अध्याय प्रथम दो वल्ली।
3. तृतीय इकाई - किरातार्जुनीयम् - प्रथम सर्ग-श्लोक 1 से 25 तक।
4. चतुर्थ इकाई - किरातार्जुनीयम् - प्रथम सर्ग - श्लोक 26 से 46 तक।
5. पंचम इकाई - शुकनासोपदेश।

प्रश्न-पत्र का विस्तृत अंक विभाजन

प्रथम खण्ड - (वस्तुनिष्ठात्मक भाग)

20 अंक

इस खंड के अंतर्गत विकल्परहित वस्तुनिष्ठ कुल दस प्रश्न पूछे जाएँगे। ये पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे तथा सभी इकाइयों से समान रूप से सम्बद्ध होंगे।

द्वितीय खण्ड - (व्याख्यात्मक भाग)

50 अंक

इस खंड के अन्तर्गत कुल पाँच प्रश्न (व्याख्याएँ) शतप्रतिशत विकल्पों के साथ पूछे जाएँगे। इनमें से प्रत्येक का उत्तर (अर्थात् व्याख्या) लगभग 250 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। इनका पाठ्यक्रमानुसार विभाजन निम्नलिखित प्रकार से होगा -

- क. वेदचयनम् - पाठ्यक्रम में ऋग्वेद के दिए गए सूक्तों में से चार मन्त्र देकर किन्हीं दो की सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी।

10 अंक

- ख. कठोपनिषद् - चार मन्त्र देकर किन्हीं दो मन्त्रों की व्याख्या पूछी जाएगी। 10 अंक
- ग. किरातार्जुनीयम् - (प्रथम सर्ग) - श्लोक 1 से 25 तक के श्लोकों में से दो श्लोक देकर एक श्लोक की सप्रसंग सटिप्पण व्याख्या पूछी जाएगी। 10 अंक
- घ. किरातार्जुनीयम् - (प्रथम सर्ग) - श्लोक 26 से 46 तक के श्लोकों में से कोई दो श्लोक देकर एक श्लोक की संस्कृत व्याख्या। 10 अंक
- इ. शुकनासोपदेश - दो गद्यांश देकर किन्हीं एक का सप्रसंग अनुवाद पूछा जाएगा। 10 अंक

तृतीय खण्ड - विवेचनात्मक भाग

30 अंक

इस खंड के अन्तर्गत कुल दो प्रश्न (विकल्पों के साथ) पूछे जाएँगे। इनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 300 शब्दों में देना होगा। इनके लिए 15 - 15 अंक निर्धारित हैं।

- अ. वेदचयनम् - दो देवताओं का नाम देकर एक देवता का स्वरूप पूछा जाएगा अथवा कठोपनिषद् के विषय से सम्बन्धित, चरित्र-चित्रण आदि पूछे जाएँगे। 15 अंक
- आ. किरातार्जुनीयम् और शुकनासोपदेश की विषयवस्तु से संबंधित, चरित्रचित्रणात्मक, समीक्षात्मक, दोनों की भाषा-शैली, काव्यगत वैशिष्ट्य, गद्य सौन्दर्य आदि। 15 अंक

सहायक पुस्तकें -

1. द न्यू वैदिक सेलेक्शन्स - एस. के. तैलंग एवं बी. बी. चैबे, भारतीय विद्या प्रकाशन, दिल्ली
2. वेदचयनम् - विश्वम्भरनाथ त्रिपाठी
3. ऋगभाष्यसंग्रह - डी. आर. चानना
4. वैदिक साहित्य और संस्कृति: पं. बलदेव उपाध्याय
5. वैदिक साहित्य का इतिहास: कुंवरलाल जैन, भारतीय विद्या प्रकाशन, दिल्ली
6. किरातार्जुनीयम् (प्रथम सर्ग): अजमेरा बुक कम्पनी, जयपुर
7. संस्कृतकविदर्शन: भोलाशंकर व्यास
8. कठोपनिषद्: अजमेरा बुक कम्पनी, जयपुर
9. शुकनासोपदेश: अजमेरा बुक कम्पनी, जयपुर
10. शुकनासोपदेश: भारतीय विद्या प्रकाशन, दिल्ली